



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2952]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 2952]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(निर्माण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4044(अ).—** केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करत हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिमी बंगाल राज्य के जिला नदिया अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नदिया में विशेष रेल परियोजना "नवद्वीप घाट - नवद्वीप धाम" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), नदिया के कार्यालय पर डाक-कृष्णानगर, जिला- नदिया, पश्चिम बंगाल, पिन- 741101 में लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में विशेष रेल परियोजना "नबद्वीप घाट - नबद्वीप धाम" नई लाइन के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

क्रम संख्या	जिला का नाम	पुलिस स्टेशन	मौज़ा	प्लॉट संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल	
				एल.आर.	आर.एस.			एकर	हेक्टेर
0	1	2	3	4		5	6	7	
1	नदिया	नबद्वीप	टेवरखाली-15	131		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7600	0.3076
				132		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				144		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				145		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				146		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
				147		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				159		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				160		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				161		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				164		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0330	0.0134
				165		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				166		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2450	0.0991
				167		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				168		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1550	0.0627
				169		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
				170		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				171		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				172		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6600	0.2671
				173		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
				174		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				178		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				266		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				271		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0775	0.0314
				272		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2050	0.0830
				275		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
				276		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				278		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0750	0.0304
				280		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
				282		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				283		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				284		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				285		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				286		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				287		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0725	0.0293
				294		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				295		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				296		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				302		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2500	0.1012

				304	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				305	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				306	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				163/948	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1150	0.0465
				170/949	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				271/973	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				271/974	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
				271/975	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				280/976	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2350	0.0951
				114/1027	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
				162/1043	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				267/1045	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1150	0.0465
				267/1046	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0775	0.0314
				267/1047	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				267/1048	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				114/1062	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				114/1063**	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				114/1065	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				167/1230	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				272/1236	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				270/1238	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
2	नदिया	नबद्वीप	गदिगछा	430	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				431	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				433	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
				436	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				437	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				438	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3850	0.1558
				439	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0650	0.0263
				440	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0375	0.0152
				445	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0170	0.0069
				446	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				447	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				448	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5500	0.2226
				449	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5500	0.2226
				450	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9000	0.3642
				451	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7800	0.3157
				452	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0647
				453	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
				454	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				455	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				472	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				473	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1650	0.0668
				474	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2350	0.0951
				475	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023

			476		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7000	0.2833
			477		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
			478		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9100	0.3683
			479		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5700	0.2307
			480		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
			494		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2350	0.0951
			495		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
			496		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
			497		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
			498		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
			499		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
			502		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1975	0.0799
			503		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2050	0.0830
			505		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0725	0.0293
			506		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
			507		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
			508		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
			509		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
			510		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7500	0.3035
			511		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5800	0.2347
			512		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1650	0.0668
			518		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			519		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
			533		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
			534		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
			536		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2450	0.0991
			537		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
			538		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4050	0.1639
			539		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
			540		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2550	0.1032
			541		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
			542		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
			543		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
			544		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.0200	0.4128
			545		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2000	0.0809
			549		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0275	0.0111
			550		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
			556		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
			561		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4400	0.1781
			562		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
			566		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
			577		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4950	0.2003
			578		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
			579		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2600	0.1052

			580		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
			598		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1050	0.0425
			599		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5550	0.2246
			600		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
			603		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2150	0.0870
			610		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
			611		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5700	0.2307
			612		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2050	0.0830
			613		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
			614		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
			615		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0005	0.0002
			618		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
			619		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
			621		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
			432/1685		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
			433/1688		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			434/1689		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
			435/1691		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			433/1687		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
			447/1273		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2200	0.0890
			447/1695		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2400	0.0971
			447/1696		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
			447/1697		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			447/1698		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
			447/1699		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
			447/1700		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
			449/1701		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
			449/1702		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
			499/1708		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
			499/2313		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
			499/2314		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			506/1711		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
			506/1712		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3800	0.1538
			506/1713		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
			507/1714		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
			507/1715		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
			508/2315		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
			519/2316		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
			539/1717		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
			543/1718		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
			566/1724		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6550	0.2651
			567/1725		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
			576/1727		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0005	0.0002
			579/1274		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061

				603/1748		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				613/1752		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				618/1754		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0425	0.0172
3	नदिया	नबद्वीप	मैडजडिया- 18, शीट- 2	533		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				536		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				537		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				538		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
				539		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4100	0.1659
				540		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				541		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7450	0.3015
				542		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				552		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.2000	0.4856
				566		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				567		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
				568		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5900	0.2388
				569		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
				570		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				571		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3750	0.1518
				572		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				573		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				574		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				575		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3600	0.1457
				576		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4600	0.1862
				577		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
				578		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				582		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
				583		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4750	0.1922
				584		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.2300	0.4978
				585		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.2800	0.5180
				586		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6750	0.2732
				587		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
				588		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				592		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				622		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
				623		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2550	0.1032
				624		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				625		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				626		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
				627		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
				628		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				629		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4650	0.1882
				632		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3800	0.1538
				633		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				634		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3600	0.1457

			635		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.1400	0.4613
			636		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
			637		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6300	0.2550
			638		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
			639		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			640		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.4500	0.5868
			641		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
			642		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.0200	0.4128
			643		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
			644		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1150	0.0465
			645		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
			646		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
			648		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3350	0.1356
			672		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
			673		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3900	0.1578
			676		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
			677		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0650	0.0263
			679		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4550	0.1841
			680		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.0300	0.4168
			681		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
			682		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4900	0.1983
			683		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
			684		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
			685		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
			686		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2400	0.0971
			687		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			688		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6300	0.2550
			689		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4900	0.1983
			690		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
			691		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
			692		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
			693		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
			694		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
			695		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
			696		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			697		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
			698		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
			699		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			700		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
			701		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
			702		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5900	0.2388
			703		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			704		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6200	0.2509
			705		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101

				708		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				709		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4150	0.1679
				710		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9650	0.3905
				711		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5800	0.2347
				712		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				713		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
				714		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
				726		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1650	0.0668
				727		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7400	0.2995
				728		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
				730		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				568/1154		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
				577/1139		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				577/1140		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4600	0.1862
				577/1141		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
				577/1142		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
				577/1143		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4400	0.1781
				577/1144		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8400	0.3399
				579/1145		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				586/903		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8000	0.3238
				586/904		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4100	0.1659
				586/905		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
				586/906		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7800	0.3157
				680/914		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3600	0.1457
4	नदिया	नबद्वीप	मैइजडिया- 18, शीट- 1	151		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2750	0.1113
				321		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.2500	0.5059
				322		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6400	0.2590
				323		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9000	0.3642
				324		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2400	0.0971
				325		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
				326		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5700	0.2307
				327		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2000	0.0809
				328		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				337		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				338		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	2.8400	1.1493
				339		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6300	0.2550
				373		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
				375		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2400	0.0971
				379		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				380		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
				381		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9250	0.3743
				383		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				384		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
				385		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3600	0.1457



5	नदिया	कृष्णा नगर	उशिवपुर-58, शीट-3	386		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				387		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				388		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				2086		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				2096		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
				2097		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				2098		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0750	0.0304
				2099		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5450	0.2206
				2101		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				2102		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
				1806/2640		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1806/2641		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6500	0.2630
				1806/2642		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				1806/2704		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				1806/2716		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4450	0.1801
				1806/2717		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
				1806/2718		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1806/2914		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				2104(RS)		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				2104/2910		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
6	नदिया	नवद्वीप	ब्रह्मानगर-22, शीट-0	82		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				83		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.1600	0.4694
				84		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6200	0.2509
				85		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
				171		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
				172		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.5350	0.6212
				173		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				174		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				175		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				176		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
				177		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				178		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				182		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.2450	0.0991
				183		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
				184		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				185		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				186		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				193		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
				194		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				195		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
				196		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4900	0.1983
				199		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				200		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9100	0.3683
				202		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7600	0.3076

			224		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
			225		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8300	0.3359
			229		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5500	0.2226
			230		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7100	0.2873
			231		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
			232		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6900	0.2792
			233		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7200	0.2914
			234		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9600	0.3885
			235		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
			239		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
			240		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2350	0.0951
			241		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
			242		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0750	0.0304
			243		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			244		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0750	0.0304
			245		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7600	0.3076
			246		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
			250		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.1300	0.4573
			252		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3650	0.1477
			253		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7300	0.2954
			254		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.0000	0.4047
			255		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
			256		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3800	0.1538
			257		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
			258		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1850	0.0749
			259		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
			262		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
			263		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.1300	0.4573
			264		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9700	0.3925
			265		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1850	0.0749
			266		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
			268		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
			270		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			170/549		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
			171/552		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
			171/553		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
			171/554		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
			171/555		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
			172/558		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
			172/559		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
			173/560		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
			175/562		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5050	0.2044
			175/563		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
			175/564		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5700	0.2307

			175/565		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
			177/566		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
			183/721		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
			184/722		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			200/606		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5200	0.2104
			200/607		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
			224/674		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
			252/594		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
			231/581		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
			231/582		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
			231/583		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
			235/585		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3150	0.1275
			235/586		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
			235/587		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
			235/588		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
			236/650		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			238/645		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
			245/590		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
			245/591		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3150	0.1275
			245/592		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6700	0.2711
			250/611		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.3100	0.5301
			252/593		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7300	0.2954
			253/675		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7800	0.3157
			253/676		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6700	0.2711
			256/596		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5650	0.2286
			256/597		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
			258/598		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
			259/599		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			262/290		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
			262/604		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
			265/600		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
			265/601		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
			265/602		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
			265/603		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
			268/677		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
			268/678		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0850	0.0344
			58/615		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
			58/620		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			79/368		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5050	0.2044
			79/383		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7550	0.3055
			79/654		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			80/387		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
			80/388		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
			81/392		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101

				82/393		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
				83/394		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				83/395		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				83/396		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				83/397		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
				84/399		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				84/398		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2200	0.0890
				84/400		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
				84/401		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4800	0.1943
				85/402		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				85/403		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
7	नदिया	Nabadwip	परमदिया-27, शीट-3		791	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
					792	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
					794	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
					781/2090	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
					781/810	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
					782/811	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4400	0.1781
					783/812	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.4750	0.5969
					785/2094	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	1.0200	0.4128
					785/813	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9250	0.3743
					786/2095	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
					786/2096	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
					786/2097	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8700	0.3521
					786/814	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
					791/815	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	2.3800	0.9632
					792/2082	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3800	0.1538
					792/2083	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
					792/2098	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6900	0.2792
					792/2099	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6700	0.2711
					792/816	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
8	नदिया	नवद्वीप	परमदिया-27, शीट-2		670	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8150	0.3298
					671	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
					672	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
					677	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5800	0.2347
					678	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5500	0.2226
					680	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
					698	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
					699	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
					710	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
					712	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4400	0.1781
					713	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
					714	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2200	0.0890
					715	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5750	0.2327
					717	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0300	0.0121

				718	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				719	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
				720	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7400	0.2995
				721	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				722	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1350	0.0546
				723	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
				724	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4900	0.1983
				725	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7750	0.3136
				726	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
				727	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0950	0.0384
				728	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				729	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
				730	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7200	0.2914
				731	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
				745	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7750	0.3136
				747	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5200	0.2104
				748	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8250	0.3339
				749	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8200	0.3318
				670/1130	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
				670/1131	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				670/1132	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				671/1133	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
				671/1134	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				671/1135	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				671/1136	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				672/1146	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				672/1147	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
				676/1155	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				677/1156	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2450	0.0991
				677/1157	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				678/1158	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				678/1159	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4100	0.1659
				678/1160	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				678/1161	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
				678/1162	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				680/1166	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				686/1226	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				686/1228	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
				686/1231	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7900	0.3197
				686/1232	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.3000	0.5261
				686/1233	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.7200	0.6961
				686/1234	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	3.8150	1.5439
				686/1235	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.5600	0.6313
				686/1238	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6400	0.2590

				686/1239	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
				686/1240	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				686/1241	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				686/1260	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.7000	0.2833
				686/1261	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				686/1262	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
				698/1298	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				699/1300	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1650	0.0668
				699/1301	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
				712/1403	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				713/1316	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				714/1317	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				715/1318	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				715/1319	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				719/1321	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6900	0.2792
				720/1433	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				722/1322	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				723/1323	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				723/1324	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				724/1326	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3400	0.1376
				728/1329	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				728/1331	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				728/1332	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				728/1333	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3600	0.1457
				728/1334	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4400	0.1781
				728/1335	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8450	0.3420
				730/1338	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				731/1340	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				747/1356	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				747/1357	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				753/1365	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				753/1366	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
				753/1367	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0650	0.0263
				754/1389	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				754/1390	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				754/1391	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				754/1392	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1393	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1394	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1395	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1396	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
				754/1397	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.2000	0.4856
				754/1398	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				754/1402	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6400	0.2590

				754/1404	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1405	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1406	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				754/1407	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8300	0.3359
				754/1408	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9650	0.3905
				754/1409	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				754/1410	गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				754/1411	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				754/1414	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
9	नदिया	नबद्वीप	परमदिया- 27, शीट-1	240	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
				241	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
				242	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
				243	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				264	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				267	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2550	0.1032
				268	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1050	0.0425
				272	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3950	0.1599
				273	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.0400	0.4209
				274	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.9800	0.3966
				275	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.1500	0.4654
				276	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.2700	0.5140
				277	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.0150	0.4108
				278	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.9450	0.3824
				280	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8600	0.3480
				281	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				282	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				283	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8000	0.3238
				284	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				285	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.0800	0.4371
				286	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	1.3200	0.5342
				287	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1450	0.0587
				290	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				432	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	1.0850	0.4391
				434	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4550	0.1841
				435	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
				436	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8100	0.3278
				437	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6300	0.2550
				438	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				439	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				442	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6200	0.2509
				443	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4200	0.1700
				469	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				470	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
				471	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2200	0.0890

				472	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				473	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
				474	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	1.5100	0.6111
				475	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	1.2000	0.4856
				476	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
				477	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				478	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4100	0.1659
				479	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2400	0.0971
				480	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
				496	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5250	0.2125
				497	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3900	0.1578
				498	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5600	0.2266
				499	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6900	0.2792
				500	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8150	0.3298
				501	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				508	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				511	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				538	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				540	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				542	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				543	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				544	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.8600	0.3480
				545	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2200	0.0890
				546	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5500	0.2226
				547	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5700	0.2307
				548	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				549	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2950	0.1194
				550	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
				551	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
				552	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				553	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1050	0.0425
				437/665	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.5400	0.2185
				279/862	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2200	0.0890
				279/863	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				279/864	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
				279/865	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				287/869	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3750	0.1518
				289/870	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				290/871	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.7700	0.3116
				290/872	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
				546/893	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				547/894	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4300	0.1740
				443/980	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
				466/1023	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1050	0.0425



					466/1024	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4700	0.1902
					466/1025	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
					466/1026	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
					466/1027	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
					466/1028	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
					469/1041	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
					469/1042	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4000	0.1619
					469/1043	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2800	0.1133
					469/1044	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
					470/1045	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
					470/1046	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
					470/1047	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
					470/1048	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
					470/1049	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
					470/1050	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
					471/1051	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
					471/1052	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
					471/1053	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
					472/1054	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
					472/1055	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
					473/1056	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
					476/1057	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
					482/1059	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
					484/1061	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
					484/1062	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2150	0.0870
					500/1066	गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3700	0.1497
10	नदिया	नबद्वीप	गद्खालि-28, शीट-3	1001		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				1029		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
				1030		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0800	0.0324
				1031		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				1032		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				1033		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1034		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				1035		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				1036		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				1037		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3800	0.1538
				1038		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6400	0.2590
				1039		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
				1040		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				1041		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
				1042		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				1043		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1044		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1045		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202

				1046		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				1047		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				1048		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.3500	0.1416
				1049		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1050		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				1051		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				1052		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1053		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				1054		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
				1055		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				1056		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				1057		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				1058		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
				1059		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				1060		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1061		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214
				1062		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				1063		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				1064		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3950	0.1599
				1065		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				1066		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1067		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1069		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1150		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				1159		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7400	0.2995
				1164		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				1165		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4150	0.1679
				1166		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.6000	0.6475
				1168		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
				1169		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				1170		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
				1171		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5200	0.2104
				1172		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6900	0.2792
				1173		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2300	0.0931
				1174		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8800	0.3561
				1175		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2850	0.1153
				1212		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0000	0.0000
				1213		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				1214		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0350	0.0142
				1215		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3250	0.1315
				1216		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1246		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648

				1247		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2450	0.0991
				1252		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				1253		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2050	0.0830
				1257		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2150	0.0870
				1260		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1261		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				1264		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				1265		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				1266		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				1268		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				1269		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				1271		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1272		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1100	0.0445
				1273		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
				1028/1811		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0550	0.0223
				1069/1348		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1159/1979		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1250	0.0506
				1159/1980		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2700	0.1093
				1159/1981		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4450	0.1801
				1159/1991		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
				1159/2015		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1168/1994		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				1169/1995		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				1170/1996		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1050	0.0425
				1216/1997		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1243/2000		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				1244/1999		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2150	0.0870
				1247/1353		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
				1258/1817		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
				1261/1818		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2550	0.1032
				1267/1819		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1268/1820		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
11	नदिया	नबद्वीप	तेघरि- 29,शीट-3	1831		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0450	0.0182
				1832		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1500	0.0607
				1833		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3100	0.1255
				1834		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6500	0.2630
				1835		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6650	0.2691
				1836		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6500	0.2630
				1837		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				1838		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
				1839		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
				1841		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7300	0.2954

				1842		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3150	0.1275
				1843		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5300	0.2145
				1852		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2150	0.0870
				1853		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.9300	0.3764
				1854		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4600	0.1862
				1855		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4900	0.1983
				1856		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6500	0.2630
				1857		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6600	0.2671
				1858		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1550	0.0627
				1865		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0300	0.0121
				1866		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1850	0.0749
				1867		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2500	0.1012
				1868		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.6500	0.2630
				1869		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				1870		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				2303		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0600	0.0243
				2304		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				2305		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
				2306		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2600	0.1052
				2307		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				2308		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				2309		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1900	0.0769
				2310		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
				2355		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1700	0.0688
				5526		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
				5527		प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0900	0.0364
				5528		गवर्नमेंट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				5055		प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				5533		गवर्नमेंट	अग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
12	नदिया	नवद्वीप	तेघरि- 29,शीट-2		1735	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5700	0.2307
					1736	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
					1737	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
					1738	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4450	0.1801
					1739	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	1.1250	0.4553
					1740	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4600	0.1862
					1741	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.7000	0.2833
					1742	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0250	0.0101
					1743	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0650	0.0263
					1745	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
					1746	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6250	0.2529
					1747	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3050	0.1234
					1748	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3000	0.1214

				1749	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.6000	0.2428
				1750	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.4500	0.1821
				1751	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8550	0.3460
				1752	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				1753	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3200	0.1295
				1757	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.8300	0.3359
				1758	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1850	0.0749
				1760	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.5000	0.2023
				1761	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				1763	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1950	0.0789
				1764	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2100	0.0850
				1766	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
				1767	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1600	0.0648
				1770	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3300	0.1335
				1771	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3900	0.1578
				1773	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				1774	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1400	0.0567
				1775	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2250	0.0911
				1776	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1800	0.0728
				1777	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.2900	0.1174
				1776/2411	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1200	0.0486
13	नदिया	नबद्वीप	तेघरि- 29,शीट-1	720	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0750	0.0304
				721	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1000	0.0405
				722	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.3150	0.1275
				723	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1750	0.0708
				725	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				724/3892	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.4450	0.1801
				724/3891	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0200	0.0081
				724	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0150	0.0061
				738	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.0400	0.0162
				739	प्राइवेट	अग्रिकल्चर	0.1300	0.0526
				740/3958	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				740/3959	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0500	0.0202
				740	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0700	0.0283
				740/3962	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0100	0.0040
				740/3960	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0050	0.0020
				741/3963	प्राइवेट	नॉनअग्रिकल्चर	0.0150	0.0061

[फा. सं. सीएओ/सीओएन/एल/302]

प्रेम नाथ राम, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

## EASTERN RAILWAY

## (Construction Department)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

**S.O. 4044(E).**—In exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, “Nabadwip Ghat – Nabadwip Dham” in the district of Nadia in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Nadia, at his office at Post- Krishnanagar, District- Nadia, West Bengal, Pin- 741101 in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

## SCHEDULE

Brief description of land to be acquired for Special Railway Project namely “Nabadwip Ghat-Nabadwip Dham”  
New Line in the District of Nadia in the State of West Bengal

Sl. No.	Name of the District	Police Station	Mouza	Plot No.		Type of land	Nature of land	Area to be acquired	
				LR	RS			Acres	Hectares
0	1	2	3	4		5	6	7	
1	Nadia	Nabadwip	Teorkhali -15	131		Private	Agriculture	0.7600	0.3076
				132		Private	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				144		Private	Agriculture	0.0950	0.0384
				145		Private	Non Agriculture	0.1700	0.0688
				146		Private	Non Agriculture	0.2250	0.0911
				147		Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				159		Private	Non Agriculture	0.1800	0.0728
				160		Private	Non Agriculture	0.2700	0.1093
				161		Private	Non Agriculture	0.0550	0.0223
				164		Private	Agriculture	0.0330	0.0134
				165		Private	Agriculture	0.0950	0.0384
				166		Private	Agriculture	0.2450	0.0991
				167		Private	Non Agriculture	0.0950	0.0384
				168		Private	Agriculture	0.1550	0.0627
				169		Private	Agriculture	0.3700	0.1497
				170		Private	Agriculture	0.0100	0.0040
				171		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
				172		Private	Non Agriculture	0.6600	0.2671
				173		Private	Agriculture	0.3400	0.1376
				174		Private	Non Agriculture	0.0350	0.0142
				178		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				266		Private	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				271		Govt.	Non Agriculture	0.0775	0.0314

				272		Private	Non Agriculture	0.2050	0.0830
				275		Private	Non Agriculture	0.3300	0.1335
				276		Private	Non Agriculture	0.1900	0.0769
				278		Govt.	Non Agriculture	0.0750	0.0304
				280		Private	Non Agriculture	0.3100	0.1255
				282		Private	Non Agriculture	0.0400	0.0162
				283		Private	Non Agriculture	0.0150	0.0061
				284		Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				285		Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				286		Private	Non Agriculture	0.0700	0.0283
				287		Private	Non Agriculture	0.0725	0.0293
				294		Govt.	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				295		Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				296		Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				302		Govt.	Non Agriculture	0.2500	0.1012
				304		Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				305		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				306		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				163/948		Private	Non Agriculture	0.1150	0.0465
				170/949		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				271/973		Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				271/974		Govt.	Non Agriculture	0.1750	0.0708
				271/975		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				280/976		Private	Non Agriculture	0.2350	0.0951
				114/1027		Private	Non Agriculture	0.4200	0.1700
				162/1043		Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				267/1045		Private	Non Agriculture	0.1150	0.0465
				267/1046		Private	Non Agriculture	0.0775	0.0314
				267/1047		Govt.	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				267/1048		Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				114/1062		Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				114/1063**		Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				114/1065		Govt.	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				167/1230		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
				272/1236		Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				270/1238		Govt.	Non Agriculture	0.0900	0.0364
2	Nadia	Nabadwip	Gadigachha	430		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
				431		Private	Agriculture	0.0550	0.0223
				433		Private	Agriculture	0.1200	0.0486
				436		Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				437		Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				438		Private	Agriculture	0.3850	0.1558
				439		Private	Agriculture	0.0650	0.0263
				440		Private	Agriculture	0.0375	0.0152
				445		Private	Agriculture	0.0170	0.0069
				446		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
				447		Private	Agriculture	0.2300	0.0931
				448		Private	Agriculture	0.5500	0.2226
				449		Private	Agriculture	0.5500	0.2226
				450		Private	Agriculture	0.9000	0.3642
				451		Private	Agriculture	0.7800	0.3157
				452		Private	Agriculture	0.1600	0.0647

				453		Private	Agriculture	0.0800	0.0324
				454		Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				455		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				472		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				473		Private	Agriculture	0.1650	0.0668
				474		Private	Agriculture	0.2350	0.0951
				475		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
				476		Private	Agriculture	0.7000	0.2833
				477		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
				478		Private	Agriculture	0.9100	0.3683
				479		Private	Agriculture	0.5700	0.2307
				480		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				494		Private	Agriculture	0.2350	0.0951
				495		Private	Agriculture	0.3400	0.1376
				496		Private	Agriculture	0.5400	0.2185
				497		Private	Agriculture	0.4200	0.1700
				498		Private	Agriculture	0.3200	0.1295
				499		Private	Agriculture	0.3300	0.1335
				502		Private	Agriculture	0.1975	0.0799
				503		Private	Agriculture	0.2050	0.0830
				505		Private	Agriculture	0.0725	0.0293
				506		Private	Agriculture	0.3500	0.1416
				507		Private	Agriculture	0.5300	0.2145
				508		Private	Agriculture	0.5300	0.2145
				509		Private	Agriculture	0.2600	0.1052
				510		Private	Agriculture	0.7500	0.3035
				511		Private	Agriculture	0.5800	0.2347
				512		Private	Agriculture	0.1650	0.0668
				518		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				519		Private	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				533		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				534		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				536		Private	Non Agriculture	0.2450	0.0991
				537		Private	Non Agriculture	0.3100	0.1255
				538		Private	Non Agriculture	0.4050	0.1639
				539		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				540		Private	Agriculture	0.2550	0.1032
				541		Private	Agriculture	0.2100	0.0850
				542		Private	Agriculture	0.3700	0.1497
				543		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				544		Private	Agriculture	1.0200	0.4128
				545		Private	Agriculture	0.2000	0.0809
				549		Private	Agriculture	0.0275	0.0111
				550		Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				556		Private	Non Agriculture	0.1800	0.0728
				561		Private	Agriculture	0.4400	0.1781
				562		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				566		Private	Agriculture	0.1750	0.0708
				577		Private	Agriculture	0.4950	0.2003
				578		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				579		Private	Agriculture	0.2600	0.1052
				580		Private	Agriculture	0.0800	0.0324



				598		Private	Agriculture	0.1050	0.0425
				599		Private	Agriculture	0.5550	0.2246
				600		Private	Agriculture	0.0800	0.0324
				603		Private	Agriculture	0.2150	0.0870
				610		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
				611		Private	Non Agriculture	0.5700	0.2307
				612		Private	Non Agriculture	0.2050	0.0830
				613		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				614		Private	Agriculture	0.4700	0.1902
				615		Private	Agriculture	0.0005	0.0002
				618		Private	Agriculture	0.6000	0.2428
				619		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
				621		Private	Agriculture	0.0100	0.0040
				432/1685		Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				433/1688		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				434/1689		Private	Agriculture	0.0450	0.0182
				435/1691		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				433/1687		Private	Agriculture	0.0950	0.0384
				447/1273		Private	Agriculture	0.2200	0.0890
				447/1695		Private	Agriculture	0.2400	0.0971
				447/1696		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				447/1697		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				447/1698		Private	Agriculture	0.4200	0.1700
				447/1699		Private	Agriculture	0.3100	0.1255
				447/1700		Private	Agriculture	0.3200	0.1295
				449/1701		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
				449/1702		Private	Agriculture	0.3700	0.1497
				499/1708		Private	Agriculture	0.1750	0.0708
				499/2313		Private	Agriculture	0.0800	0.0324
				499/2314		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				506/1711		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				506/1712		Private	Agriculture	0.3800	0.1538
				506/1713		Private	Agriculture	0.3300	0.1335
				507/1714		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				507/1715		Private	Agriculture	0.5400	0.2185
				508/2315		Private	Agriculture	0.4300	0.1740
				519/2316		Private	Non Agriculture	0.1750	0.0708
				539/1717		Private	Agriculture	0.0300	0.0121
				543/1718		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				566/1724		Private	Agriculture	0.6550	0.2651
				567/1725		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				576/1727		Private	Agriculture	0.0005	0.0002
				579/1274		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				603/1748		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
				613/1752		Private	Agriculture	0.0950	0.0384
				618/1754		Private	Agriculture	0.0425	0.0172
3	Nadia	Nabadwip	Maijdia - 18 Sheet 2	533		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				536		Private	Agriculture	0.0550	0.0223
				537		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
				538		Private	Agriculture	0.3300	0.1335
				539		Private	Agriculture	0.4100	0.1659
				540		Private	Agriculture	0.2900	0.1174

				541		Private	Agriculture	0.7450	0.3015
				542		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
				552		Private	Agriculture	1.2000	0.4856
				566		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				567		Private	Agriculture	0.4300	0.1740
				568		Private	Agriculture	0.5900	0.2388
				569		Private	Non Agriculture	0.2600	0.1052
				570		Private	Non Agriculture	0.2700	0.1093
				571		Private	Agriculture	0.3750	0.1518
				572		Private	Agriculture	0.2100	0.0850
				573		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				574		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				575		Private	Agriculture	0.3600	0.1457
				576		Private	Agriculture	0.4600	0.1862
				577		Private	Agriculture	0.4300	0.1740
				578		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				582		Private	Agriculture	0.1450	0.0587
				583		Private	Agriculture	0.4750	0.1922
				584		Private	Agriculture	1.2300	0.4978
				585		Private	Agriculture	1.2800	0.5180
				586		Govt.	Non Agriculture	0.6750	0.2732
				587		Private	Non Agriculture	0.1450	0.0587
				588		Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				592		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				622		Private	Non Agriculture	0.3100	0.1255
				623		Private	Non Agriculture	0.2550	0.1032
				624		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				625		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				626		Private	Agriculture	0.1450	0.0587
				627		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				628		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
				629		Private	Agriculture	0.4650	0.1882
				632		Private	Agriculture	0.3800	0.1538
				633		Private	Agriculture	0.0950	0.0384
				634		Private	Agriculture	0.3600	0.1457
				635		Private	Agriculture	1.1400	0.4613
				636		Private	Agriculture	0.1400	0.0567
				637		Private	Agriculture	0.6300	0.2550
				638		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				639		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				640		Private	Agriculture	1.4500	0.5868
				641		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				642		Private	Agriculture	1.0200	0.4128
				643		Private	Agriculture	0.3100	0.1255
				644		Private	Agriculture	0.1150	0.0465
				645		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				646		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
				648		Private	Agriculture	0.3350	0.1356
				672		Private	Agriculture	0.1300	0.0526
				673		Private	Agriculture	0.3900	0.1578
				676		Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				677		Private	Agriculture	0.0650	0.0263

			679		Private	Agriculture	0.4550	0.1841
			680		Private	Agriculture	1.0300	0.4168
			681		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
			682		Private	Agriculture	0.4900	0.1983
			683		Private	Agriculture	0.4200	0.1700
			684		Private	Agriculture	0.2100	0.0850
			685		Private	Agriculture	0.2250	0.0911
			686		Private	Agriculture	0.2400	0.0971
			687		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			688		Private	Agriculture	0.6300	0.2550
			689		Private	Agriculture	0.4900	0.1983
			690		Private	Agriculture	0.4200	0.1700
			691		Private	Agriculture	0.1300	0.0526
			692		Private	Agriculture	0.1400	0.0567
			693		Private	Agriculture	0.6000	0.2428
			694		Private	Agriculture	0.3500	0.1416
			695		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
			696		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			697		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
			698		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
			699		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			700		Private	Agriculture	0.0700	0.0283
			701		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
			702		Private	Agriculture	0.5900	0.2388
			703		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			704		Private	Agriculture	0.6200	0.2509
			705		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
			708		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
			709		Private	Agriculture	0.4150	0.1679
			710		Private	Agriculture	0.9650	0.3905
			711		Private	Agriculture	0.5800	0.2347
			712		Private	Agriculture	0.0550	0.0223
			713		Private	Agriculture	0.0800	0.0324
			714		Private	Agriculture	0.3400	0.1376
			726		Private	Agriculture	0.1650	0.0668
			727		Private	Agriculture	0.7400	0.2995
			728		Private	Agriculture	0.0800	0.0324
			730		Private	Agriculture	0.1400	0.0567
			568/1154		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
			577/1139		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
			577/1140		Private	Agriculture	0.4600	0.1862
			577/1141		Private	Agriculture	0.3700	0.1497
			577/1142		Private	Agriculture	0.3500	0.1416
			577/1143		Private	Agriculture	0.4400	0.1781
			577/1144		Private	Non Agriculture	0.8400	0.3399
			579/1145		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			586/903		Private	Agriculture	0.8000	0.3238
			586/904		Private	Agriculture	0.4100	0.1659
			586/905		Private	Agriculture	0.3200	0.1295
			586/906		Private	Agriculture	0.7800	0.3157
			680/914		Private	Agriculture	0.3600	0.1457

4	Nadia	Nabadwip	Maijdia - 18 Sheet 1	151		Private	Non Agriculture	0.2750	0.1113
				321		Private	Non Agriculture	1.2500	0.5059
				322		Private	Agriculture	0.6400	0.2590
				323		Private	Agriculture	0.9000	0.3642
				324		Private	Agriculture	0.2400	0.0971
				325		Private	Agriculture	0.2600	0.1052
				326		Private	Agriculture	0.5700	0.2307
				327		Private	Agriculture	0.2000	0.0809
				328		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				337		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				338		Private	Agriculture	2.8400	1.1493
				339		Private	Agriculture	0.6300	0.2550
				373		Private	Agriculture	0.4200	0.1700
				375		Private	Agriculture	0.2400	0.0971
				379		Private	Agriculture	0.2300	0.0931
				380		Private	Agriculture	0.5300	0.2145
				381		Private	Agriculture	0.9250	0.3743
				383		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				384		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
				385		Private	Agriculture	0.3600	0.1457
				386		Govt.	Agriculture	0.2900	0.1174
5	Nadia	Krishnagar	Ushidpur - 58 Sheet - 3	387		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				388		Private	Non Agriculture	0.0400	0.0162
				2086		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				2096		Private	Agriculture	0.0450	0.0182
				2097		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				2098		Private	Agriculture	0.0750	0.0304
				2099		Private	Agriculture	0.5450	0.2206
				2101		Govt.	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				2102		Private	Non Agriculture	0.0450	0.0182
				1806/2640		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				1806/2641		Private	Agriculture	0.6500	0.2630
				1806/2642		Private	Non Agriculture	0.0700	0.0283
				1806/2704		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				1806/2716		Private	Non Agriculture	0.4450	0.1801
				1806/2717		Private	Non Agriculture	0.4700	0.1902
				1806/2718		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1806/2914		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
				2104(RS)		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				2104/2910		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
6	Nadia	Nabadwip	Brahmanagar - 22 Sheet - 0	82		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				83		Private	Agriculture	1.1600	0.4694
				84		Private	Agriculture	0.6200	0.2509
				85		Private	Agriculture	0.2500	0.1012
				171		Private	Non Agriculture	0.3300	0.1335
				172		Private	Agriculture	1.5350	0.6212
				173		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				174		Private	Non Agriculture	0.3000	0.1214
				175		Private	Non Agriculture	0.2100	0.0850
				176		Private	Agriculture	0.6000	0.2428
				177		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				178		Private	Agriculture	0.0400	0.0162

			182		Govt.	Non Agriculture	0.2450	0.0991
			183		Private	Agriculture	0.3400	0.1376
			184		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
			185		Private	Agriculture	0.0200	0.0081
			186		Govt.	Agriculture	0.0050	0.0020
			193		Private	Agriculture	0.3300	0.1335
			194		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
			195		Private	Agriculture	0.6000	0.2428
			196		Private	Agriculture	0.4900	0.1983
			199		Private	Agriculture	0.5000	0.2023
			200		Private	Agriculture	0.9100	0.3683
			202		Private	Agriculture	0.7600	0.3076
			224		Private	Agriculture	0.0100	0.0040
			225		Private	Agriculture	0.8300	0.3359
			229		Private	Agriculture	0.5500	0.2226
			230		Private	Agriculture	0.7100	0.2873
			231		Private	Agriculture	0.0100	0.0040
			232		Private	Agriculture	0.6900	0.2792
			233		Private	Agriculture	0.7200	0.2914
			234		Private	Agriculture	0.9600	0.3885
			235		Private	Agriculture	0.4700	0.1902
			239		Private	Agriculture	0.3100	0.1255
			240		Private	Agriculture	0.2350	0.0951
			241		Private	Agriculture	0.2250	0.0911
			242		Private	Agriculture	0.0750	0.0304
			243		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
			244		Private	Agriculture	0.0750	0.0304
			245		Private	Agriculture	0.7600	0.3076
			246		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
			250		Private	Agriculture	1.1300	0.4573
			252		Private	Agriculture	0.3650	0.1477
			253		Private	Agriculture	0.7300	0.2954
			254		Private	Agriculture	1.0000	0.4047
			255		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
			256		Private	Agriculture	0.3800	0.1538
			257		Private	Agriculture	0.5400	0.2185
			258		Private	Agriculture	0.1850	0.0749
			259		Private	Agriculture	0.2300	0.0931
			262		Private	Agriculture	0.1200	0.0486
			263		Private	Agriculture	1.1300	0.4573
			264		Private	Agriculture	0.9700	0.3925
			265		Private	Agriculture	0.1850	0.0749
			266		Govt.	Non Agriculture	0.1450	0.0587
			268		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
			270		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			170/549		Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
			171/552		Private	Non Agriculture	0.3400	0.1376
			171/553		Private	Agriculture	0.1200	0.0486
			171/554		Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
			171/555		Private	Agriculture	0.0400	0.0162
			172/558		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
			172/559		Private	Agriculture	0.4000	0.1619

			173/560		Private	Agriculture	0.4300	0.1740
			175/562		Private	Agriculture	0.5050	0.2044
			175/563		Private	Agriculture	0.4300	0.1740
			175/564		Private	Agriculture	0.5700	0.2307
			175/565		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
			177/566		Private	Agriculture	0.1450	0.0587
			183/721		Govt.	Agriculture	0.0600	0.0243
			184/722		Govt.	Agriculture	0.1100	0.0445
			200/606		Private	Agriculture	0.5200	0.2104
			200/607		Private	Agriculture	0.5300	0.2145
			224/674		Private	Agriculture	0.0700	0.0283
			252/594		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
			231/581		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
			231/582		Private	Agriculture	0.2800	0.1133
			231/583		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
			235/585		Private	Agriculture	0.3150	0.1275
			235/586		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
			235/587		Private	Agriculture	0.1200	0.0486
			235/588		Private	Agriculture	0.5400	0.2185
			236/650		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			238/645		Private	Agriculture	0.1300	0.0526
			245/590		Private	Agriculture	0.3200	0.1295
			245/591		Private	Agriculture	0.3150	0.1275
			245/592		Private	Agriculture	0.6700	0.2711
			250/611		Private	Agriculture	1.3100	0.5301
			252/593		Private	Agriculture	0.7300	0.2954
			253/675		Private	Agriculture	0.7800	0.3157
			253/676		Private	Agriculture	0.6700	0.2711
			256/596		Private	Agriculture	0.5650	0.2286
			256/597		Private	Agriculture	0.4000	0.1619
			258/598		Private	Agriculture	0.1600	0.0648
			259/599		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			262/290		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
			262/604		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
			265/600		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
			265/601		Private	Agriculture	0.1900	0.0769
			265/602		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			265/603		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
			268/677		Private	Agriculture	0.2100	0.0850
			268/678		Private	Agriculture	0.0850	0.0344
			58/615		Govt.	Non Agriculture	0.0150	0.0061
			58/620		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			79/368		Private	Agriculture	0.5050	0.2044
			79/383		Private	Agriculture	0.7550	0.3055
			79/654		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			80/387		Private	Agriculture	0.2500	0.1012
			80/388		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
			81/392		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
			82/393		Private	Non Agriculture	0.4700	0.1902
			83/394		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
			83/395		Private	Non Agriculture	0.2300	0.0931
			83/396		Private	Non Agriculture	0.1900	0.0769

				83/397		Private	Non Agriculture	0.1200	0.0486
				84/399		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
				84/398		Private	Non Agriculture	0.2200	0.0890
				84/400		Private	Non Agriculture	0.1600	0.0648
				84/401		Private	Agriculture	0.4800	0.1943
				85/402		Private	Agriculture	0.1400	0.0567
				85/403		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
7	Nadia	Nabadwip	Parmadia - 27 (Sheet No . - 3)		791	Private	Agriculture	0.0450	0.0182
					792	Private	Agriculture	0.1750	0.0708
					794	Govt.	Non Agriculture	0.4500	0.1821
					781/2090	Private	Agriculture	0.0950	0.0384
					781/810	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
					782/811	Private	Agriculture	0.4400	0.1781
					783/812	Private	Agriculture	1.4750	0.5969
					785/2094	Govt.	Agriculture	1.0200	0.4128
					785/813	Private	Agriculture	0.9250	0.3743
					786/2095	Private	Agriculture	0.1100	0.0445
					786/2096	Private	Agriculture	0.3500	0.1416
					786/2097	Private	Agriculture	0.8700	0.3521
					786/814	Private	Agriculture	0.3400	0.1376
					791/815	Private	Agriculture	2.3800	0.9632
					792/2082	Private	Agriculture	0.3800	0.1538
					792/2083	Private	Agriculture	0.1200	0.0486
					792/2098	Private	Agriculture	0.6900	0.2792
					792/2099	Private	Agriculture	0.6700	0.2711
					792/816	Private	Agriculture	0.5400	0.2185
8	Nadia	Nabadwip	Parmadia - 27 (Sheet No. -2)		670	Private	Agriculture	0.8150	0.3298
					671	Private	Agriculture	0.3300	0.1335
					672	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
					677	Private	Agriculture	0.5800	0.2347
					678	Private	Non Agriculture	0.5500	0.2226
					680	Private	Agriculture	0.0500	0.0202
					698	Private	Agriculture	0.1100	0.0445
					699	Private	Agriculture	0.2700	0.1093
					710	Govt.	Non Agriculture	0.1500	0.0607
					712	Private	Agriculture	0.4400	0.1781
					713	Private	Agriculture	0.1900	0.0769
					714	Private	Agriculture	0.2200	0.0890
					715	Private	Agriculture	0.5750	0.2327
					717	Private	Agriculture	0.0300	0.0121
					718	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
					719	Private	Agriculture	0.6000	0.2428
					720	Private	Agriculture	0.7400	0.2995
					721	Private	Agriculture	0.1800	0.0728
					722	Private	Agriculture	0.1350	0.0546
					723	Private	Agriculture	0.4300	0.1740
					724	Private	Agriculture	0.4900	0.1983
					725	Private	Agriculture	0.7750	0.3136
					726	Private	Agriculture	0.2500	0.1012
					727	Private	Agriculture	0.0950	0.0384
					728	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
					729	Private	Agriculture	0.4700	0.1902

				730	Private	Agriculture	0.7200	0.2914
				731	Private	Agriculture	0.5300	0.2145
				745	Private	Agriculture	0.7750	0.3136
				747	Private	Agriculture	0.5200	0.2104
				748	Private	Agriculture	0.8250	0.3339
				749	Private	Agriculture	0.8200	0.3318
				670/1130	Private	Agriculture	0.3200	0.1295
				670/1131	Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				670/1132	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				671/1133	Private	Agriculture	0.1300	0.0526
				671/1134	Govt.	Agriculture	0.1100	0.0445
				671/1135	Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				671/1136	Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				672/1146	Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				672/1147	Private	Agriculture	0.2600	0.1052
				676/1155	Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				677/1156	Private	Agriculture	0.2450	0.0991
				677/1157	Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				678/1158	Private	Agriculture	0.0100	0.0040
				678/1159	Private	Agriculture	0.4100	0.1659
				678/1160	Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				678/1161	Private	Agriculture	0.2500	0.1012
				678/1162	Private	Agriculture	0.0100	0.0040
				680/1166	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				686/1226	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				686/1228	Private	Agriculture	0.1750	0.0708
				686/1231	Private	Agriculture	0.7900	0.3197
				686/1232	Private	Agriculture	1.3000	0.5261
				686/1233	Private	Agriculture	1.7200	0.6961
				686/1234	Private	Agriculture	3.8150	1.5439
				686/1235	Private	Agriculture	1.5600	0.6313
				686/1238	Private	Agriculture	0.6400	0.2590
				686/1239	Private	Agriculture	0.1200	0.0486
				686/1240	Private	Agriculture	0.0550	0.0223
				686/1241	Govt.	Non Agriculture	0.0350	0.0142
				686/1260	Govt.	Agriculture	0.7000	0.2833
				686/1261	Private	Non Agriculture	0.2700	0.1093
				686/1262	Private	Agriculture	0.4200	0.1700
				698/1298	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				699/1300	Private	Agriculture	0.1650	0.0668
				699/1301	Private	Agriculture	0.3400	0.1376
				712/1403	Govt.	Non Agriculture	0.0700	0.0283
				713/1316	Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				714/1317	Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				715/1318	Private	Agriculture	0.4500	0.1821
				715/1319	Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				719/1321	Private	Agriculture	0.6900	0.2792
				720/1433	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				722/1322	Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				723/1323	Private	Agriculture	0.5000	0.2023
				723/1324	Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				724/1326	Private	Agriculture	0.3400	0.1376



				728/1329	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				728/1331	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				728/1332	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				728/1333	Private	Agriculture	0.3600	0.1457
				728/1334	Private	Agriculture	0.4400	0.1781
				728/1335	Private	Agriculture	0.8450	0.3420
				730/1338	Private	Agriculture	0.5000	0.2023
				731/1340	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				747/1356	Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				747/1357	Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				753/1365	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
				753/1366	Private	Agriculture	0.5400	0.2185
				753/1367	Private	Agriculture	0.0650	0.0263
				754/1389	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				754/1390	Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				754/1391	Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				754/1392	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1393	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1394	Govt.	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1395	Govt.	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1396	Private	Agriculture	0.0800	0.0324
				754/1397	Private	Agriculture	1.2000	0.4856
				754/1398	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				754/1402	Govt.	Non Agriculture	0.6400	0.2590
				754/1404	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1405	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1406	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				754/1407	Private	Agriculture	0.8300	0.3359
				754/1408	Private	Agriculture	0.9650	0.3905
				754/1409	Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				754/1410	Govt.	Agriculture	0.0350	0.0142
				754/1411	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				754/1414	Private	Agriculture	0.0700	0.0283
9	Nadia	Nabadwip	Parmadia - 27 (Sheet No . - 1)	240	Private	Agriculture	0.1500	0.0607
				241	Private	Agriculture	0.2500	0.1012
				242	Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				243	Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				264	Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				267	Private	Non Agriculture	0.2550	0.1032
				268	Private	Non Agriculture	0.1050	0.0425
				272	Private	Agriculture	0.3950	0.1599
				273	Private	Agriculture	1.0400	0.4209
				274	Private	Non Agriculture	0.9800	0.3966
				275	Private	Non Agriculture	1.1500	0.4654
				276	Private	Non Agriculture	1.2700	0.5140
				277	Private	Non Agriculture	1.0150	0.4108
				278	Private	Non Agriculture	0.9450	0.3824
				280	Private	Non Agriculture	0.8600	0.3480
				281	Private	Non Agriculture	0.2800	0.1133
				282	Private	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				283	Private	Non Agriculture	0.8000	0.3238
				284	Private	Non Agriculture	0.2300	0.0931

				285	Private	Non Agriculture	1.0800	0.4371
				286	Private	Non Agriculture	1.3200	0.5342
				287	Private	Non Agriculture	0.1450	0.0587
				290	Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				432	Govt.	Non Agriculture	1.0850	0.4391
				434	Govt.	Non Agriculture	0.4550	0.1841
				435	Govt.	Non Agriculture	0.4000	0.1619
				436	Govt.	Non Agriculture	0.8100	0.3278
				437	Govt.	Non Agriculture	0.6300	0.2550
				438	Govt.	Non Agriculture	0.3000	0.1214
				439	Govt.	Non Agriculture	0.1400	0.0567
				442	Govt.	Non Agriculture	0.6200	0.2509
				443	Govt.	Non Agriculture	0.4200	0.1700
				469	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				470	Govt.	Non Agriculture	0.1750	0.0708
				471	Govt.	Non Agriculture	0.2200	0.0890
				472	Govt.	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				473	Govt.	Non Agriculture	0.4300	0.1740
				474	Govt.	Non Agriculture	1.5100	0.6111
				475	Govt.	Non Agriculture	1.2000	0.4856
				476	Govt.	Non Agriculture	0.4700	0.1902
				477	Govt.	Non Agriculture	0.3000	0.1214
				478	Govt.	Non Agriculture	0.4100	0.1659
				479	Govt.	Non Agriculture	0.2400	0.0971
				480	Govt.	Non Agriculture	0.3500	0.1416
				496	Govt.	Non Agriculture	0.5250	0.2125
				497	Govt.	Non Agriculture	0.3900	0.1578
				498	Govt.	Non Agriculture	0.5600	0.2266
				499	Govt.	Non Agriculture	0.6900	0.2792
				500	Private	Non Agriculture	0.8150	0.3298
				501	Govt.	Non Agriculture	0.4500	0.1821
				508	Govt.	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				511	Govt.	Non Agriculture	0.0700	0.0283
				538	Govt.	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				540	Govt.	Non Agriculture	0.1000	0.0405
				542	Govt.	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				543	Govt.	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				544	Govt.	Non Agriculture	0.8600	0.3480
				545	Govt.	Non Agriculture	0.2200	0.0890
				546	Private	Non Agriculture	0.5500	0.2226
				547	Private	Non Agriculture	0.5700	0.2307
				548	Private	Non Agriculture	0.0900	0.0364
				549	Private	Non Agriculture	0.2950	0.1194
				550	Private	Non Agriculture	0.3700	0.1497
				551	Private	Non Agriculture	0.5400	0.2185
				552	Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				553	Private	Non Agriculture	0.1050	0.0425
				437/665	Govt.	Non Agriculture	0.5400	0.2185
				279/862	Private	Non Agriculture	0.2200	0.0890
				279/863	Private	Non Agriculture	0.2100	0.0850
				279/864	Private	Non Agriculture	0.2250	0.0911
				279/865	Private	Agriculture	0.0500	0.0202

				287/869	Govt.	Non Agriculture	0.3750	0.1518
				289/870	Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				290/871	Private	Non Agriculture	0.7700	0.3116
				290/872	Private	Non Agriculture	0.3100	0.1255
				546/893	Private	Non Agriculture	0.2100	0.0850
				547/894	Private	Non Agriculture	0.4300	0.1740
				443/980	Govt.	Non Agriculture	0.2800	0.1133
				466/1023	Private	Agriculture	0.1050	0.0425
				466/1024	Private	Agriculture	0.4700	0.1902
				466/1025	Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				466/1026	Private	Non Agriculture	0.1900	0.0769
				466/1027	Private	Agriculture	0.1600	0.0648
				466/1028	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
				469/1041	Govt.	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				469/1042	Private	Agriculture	0.4000	0.1619
				469/1043	Private	Agriculture	0.2800	0.1133
				469/1044	Private	Agriculture	0.0800	0.0324
				470/1045	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				470/1046	Private	Agriculture	0.1300	0.0526
				470/1047	Private	Non Agriculture	0.1200	0.0486
				470/1048	Private	Non Agriculture	0.0800	0.0324
				470/1049	Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				470/1050	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				471/1051	Private	Agriculture	0.0700	0.0283
				471/1052	Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				471/1053	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				472/1054	Private	Agriculture	0.0200	0.0081
				472/1055	Private	Agriculture	0.1200	0.0486
				473/1056	Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				476/1057	Private	Agriculture	0.0300	0.0121
				482/1059	Private	Agriculture	0.0100	0.0040
				484/1061	Govt.	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				484/1062	Private	Agriculture	0.2150	0.0870
				500/1066	Govt.	Non Agriculture	0.3700	0.1497
10	Nadia	Nabadwip	Gadkhali - 28 Sheet - 3	1001	Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				1029	Private	Non Agriculture	0.0450	0.0182
				1030	Private	Non Agriculture	0.0800	0.0324
				1031	Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				1032	Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				1033	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1034	Private	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				1035	Private	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				1036	Private	Non Agriculture	0.0900	0.0364
				1037	Private	Agriculture	0.3800	0.1538
				1038	Private	Agriculture	0.6400	0.2590
				1039	Private	Non Agriculture	0.1500	0.0607
				1040	Private	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				1041	Private	Non Agriculture	0.2600	0.1052
				1042	Private	Agriculture	0.2100	0.0850
				1043	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1044	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1045	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202

				1046		Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				1047		Private	Non Agriculture	0.0400	0.0162
				1048		Private	Non Agriculture	0.3500	0.1416
				1049		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1050		Private	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				1051		Private	Non Agriculture	0.4500	0.1821
				1052		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1053		Private	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				1054		Private	Non Agriculture	0.1200	0.0486
				1055		Private	Non Agriculture	0.2300	0.0931
				1056		Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				1057		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
				1058		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
				1059		Private	Agriculture	0.1700	0.0688
				1060		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				1061		Private	Agriculture	0.3000	0.1214
				1062		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				1063		Private	Agriculture	0.1800	0.0728
				1064		Private	Agriculture	0.3950	0.1599
				1065		Private	Agriculture	0.1000	0.0405
				1066		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1067		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				1069		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				1150		Private	Non Agriculture	0.1100	0.0445
				1159		Private	Agriculture	0.7400	0.2995
				1164		Private	Non Agriculture	0.0250	0.0101
				1165		Private	Agriculture	0.4150	0.1679
				1166		Private	Agriculture	1.6000	0.6475
				1168		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
				1169		Private	Agriculture	0.2700	0.1093
				1170		Private	Agriculture	0.3200	0.1295
				1171		Private	Agriculture	0.5200	0.2104
				1172		Private	Agriculture	0.6900	0.2792
				1173		Private	Agriculture	0.2300	0.0931
				1174		Private	Agriculture	0.8800	0.3561
				1175		Private	Agriculture	0.2850	0.1153
				1212		Private	Agriculture	0.0000	0.0000
				1213		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				1214		Private	Agriculture	0.0350	0.0142
				1215		Private	Agriculture	0.3250	0.1315
				1216		Private	Agriculture	0.0500	0.0202
				1246		Private	Agriculture	0.1600	0.0648
				1247		Private	Agriculture	0.2450	0.0991
				1252		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
				1253		Private	Agriculture	0.2050	0.0830
				1257		Private	Agriculture	0.2150	0.0870
				1260		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1261		Private	Agriculture	0.0700	0.0283
				1264		Private	Agriculture	0.2700	0.1093
				1265		Private	Agriculture	0.0700	0.0283
				1266		Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				1268		Private	Agriculture	0.0600	0.0243

				1269		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				1271		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1272		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
				1273		Private	Agriculture	0.0450	0.0182
				1028/1811		Private	Agriculture	0.0550	0.0223
				1069/1348		Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				1159/1979		Private	Agriculture	0.1250	0.0506
				1159/1980		Private	Agriculture	0.2700	0.1093
				1159/1981		Private	Agriculture	0.4450	0.1801
				1159/1991		Private	Agriculture	0.1600	0.0648
				1159/2015		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1168/1994		Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				1169/1995		Private	Agriculture	0.0900	0.0364
				1170/1996		Private	Agriculture	0.1050	0.0425
				1216/1997		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1243/2000		Private	Agriculture	0.0400	0.0162
				1244/1999		Private	Agriculture	0.2150	0.0870
				1247/1353		Private	Agriculture	0.2250	0.0911
				1258/1817		Private	Agriculture	0.1950	0.0789
				1261/1818		Private	Agriculture	0.2550	0.1032
				1267/1819		Private	Agriculture	0.0050	0.0020
				1268/1820		Private	Agriculture	0.0100	0.0040
11	Nadia	Nabadwip	Teghari - 29 Sheet -3	1831		Private	Agriculture	0.0450	0.0182
				1832		Private	Agriculture	0.1500	0.0607
				1833		Private	Agriculture	0.3100	0.1255
				1834		Private	Agriculture	0.6500	0.2630
				1835		Private	Agriculture	0.6650	0.2691
				1836		Private	Agriculture	0.6500	0.2630
				1837		Private	Agriculture	0.4500	0.1821
				1838		Private	Agriculture	0.1750	0.0708
				1839		Private	Agriculture	0.1200	0.0486
				1841		Private	Agriculture	0.7300	0.2954
				1842		Private	Agriculture	0.3150	0.1275
				1843		Private	Agriculture	0.5300	0.2145
				1852		Private	Agriculture	0.2150	0.0870
				1853		Private	Agriculture	0.9300	0.3764
				1854		Private	Agriculture	0.4600	0.1862
				1855		Private	Agriculture	0.4900	0.1983
				1856		Private	Agriculture	0.6500	0.2630
				1857		Private	Agriculture	0.6600	0.2671
				1858		Private	Agriculture	0.1550	0.0627
				1865		Private	Non Agriculture	0.0300	0.0121
				1866		Private	Non Agriculture	0.1850	0.0749
				1867		Private	Non Agriculture	0.2500	0.1012
				1868		Private	Non Agriculture	0.6500	0.2630
				1869		Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				1870		Govt.	Non Agriculture	0.2900	0.1174
				2303		Govt.	Non Agriculture	0.0600	0.0243
				2304		Govt.	Non Agriculture	0.0200	0.0081
				2305		Private	Non Agriculture	0.1600	0.0648
				2306		Private	Non Agriculture	0.2600	0.1052
				2307		Private	Non Agriculture	0.1400	0.0567

				2308		Private	Non Agriculture	0.2100	0.0850
				2309		Private	Non Agriculture	0.1900	0.0769
				2310		Private	Agriculture	0.0250	0.0101
				2355		Govt.	Non Agriculture	0.1700	0.0688
				5526		Private	Non Agriculture	0.1300	0.0526
				5527		Private	Non Agriculture	0.0900	0.0364
				5528		Govt.	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				5055		Private	Agriculture	0.0150	0.0061
				5533		Govt.	Agriculture	0.0700	0.0283
12	Nadia	Nabadwip	Teghari - 29 Sheet -2		1735	Private	Agriculture	0.5700	0.2307
					1736	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
					1737	Private	Agriculture	0.3300	0.1335
					1738	Private	Agriculture	0.4450	0.1801
					1739	Private	Agriculture	1.1250	0.4553
					1740	Private	Agriculture	0.4600	0.1862
					1741	Private	Agriculture	0.7000	0.2833
					1742	Private	Agriculture	0.0250	0.0101
					1743	Private	Agriculture	0.0650	0.0263
					1745	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
					1746	Private	Agriculture	0.6250	0.2529
					1747	Private	Agriculture	0.3050	0.1234
					1748	Private	Agriculture	0.3000	0.1214
					1749	Private	Agriculture	0.6000	0.2428
					1750	Private	Agriculture	0.4500	0.1821
					1751	Private	Agriculture	0.8550	0.3460
					1752	Private	Agriculture	0.0400	0.0162
					1753	Private	Agriculture	0.3200	0.1295
					1757	Private	Agriculture	0.8300	0.3359
					1758	Private	Agriculture	0.1850	0.0749
					1760	Private	Agriculture	0.5000	0.2023
					1761	Private	Agriculture	0.0050	0.0020
					1763	Private	Agriculture	0.1950	0.0789
					1764	Private	Agriculture	0.2100	0.0850
					1766	Private	Agriculture	0.1600	0.0648
					1767	Private	Agriculture	0.1600	0.0648
					1770	Private	Agriculture	0.3300	0.1335
					1771	Private	Agriculture	0.3900	0.1578
					1773	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
					1774	Private	Agriculture	0.1400	0.0567
					1775	Private	Agriculture	0.2250	0.0911
					1776	Private	Agriculture	0.1800	0.0728
					1777	Private	Agriculture	0.2900	0.1174
					1776/2411	Private	Agriculture	0.1200	0.0486
13	Nadia	Nabadwip	Teghari - 29 Sheet -1		720	Private	Agriculture	0.0750	0.0304
					721	Private	Agriculture	0.1000	0.0405
					722	Private	Agriculture	0.3150	0.1275
					723	Private	Agriculture	0.1750	0.0708
					725	Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
					724/3892	Private	Non Agriculture	0.4450	0.1801
					724/3891	Private	Non Agriculture	0.0200	0.0081
					724	Private	Agriculture	0.0150	0.0061
					738	Private	Agriculture	0.0400	0.0162

				739	Private	Agriculture	0.1300	0.0526
				740/3958	Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				740/3959	Private	Non Agriculture	0.0500	0.0202
				740	Private	Non Agriculture	0.0700	0.0283
				740/3962	Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
				740/3960	Private	Non Agriculture	0.0050	0.0020
				741/3963	Private	Non Agriculture	0.0150	0.0061

[F. No. CAO/CON/L/302]

PREM NATH RAM, Chief Administrative Officer/Con.